



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

13 अग्रहायण 1936 (श10)  
(सं0 पटना 984) पटना, बृहस्पतिवार, 4 दिसम्बर 2014

---

निर्वाचन विभाग

अधिसूचना

21 नवम्बर 2014

सं0 एम1-009/2014-99—निरर्हित घोषित किये गये अभ्यर्थियों से संबंधित भारत निर्वाचन आयोग की आदेश संख्या 76/बिहार-वि.स./2010 दिनांक 07.08.2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
हुसैन यूसुफ रिजवी,  
अपर सचिव।

## भारत निर्वाचन आयोग

## आदेश

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001 तारीख 7 अगस्त, 2014 / 16 श्रावण, 1936 (शक)

सं० 76/बिहार-वि.स./2010—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ-2 में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2010 के लिए जो स्तम्भ-3 में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ-4 में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ-5 में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है ;

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ-4 में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरहित घोषित करता है :-

## सारणी

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निर्हरता का कारण
1	2	3	4	5
1	बिहार विधान-सभा का साधारण निर्वाचन, 2010	105-सिवान	अजय कुमार ग्राम-फतेहपुर पो०आ०-सिवान जिला-सिवान	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2	-वही-	107-दरौली	राम सकल राम ग्राम - मुराकावर, पोस्ट - मुराकाप, थाना- दरौली, जिला-सिवान, बिहार	-वही-
3	-वही-	-वही-	नन्द जी राम ग्राम+पोस्ट - कृष्णापाली थाना -दरौली जिला - सिवान, बिहार	-वही-
4	-वही-	-वही-	माधुरी देवी ग्राम+पोस्ट - सिरसीया थाना- नौतन जिला-सिवान, बिहार	-वही-
5	-वही-	-वही-	अशोक कुमार प्रसाद ग्राम-वलहू टोला रामनगर पोस्ट-वलहू थाना-दरौली जिला - सिवान, बिहार	-वही-
6	-वही-	-वही-	रामजीत भारती ग्राम-धौला, पो०आ०-भलवा थाना-गुथानी जिला -सिवान, बिहार	-वही-
7	-वही-	-वही-	रघुनाथ राम ग्राम+पो०-रामपुर पोस्ट-रामपुर का टोला जिला-सिवान, बिहार	-वही-

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निर्हरता का कारण
1	2	3	4	5
8	बिहार विधान-सभा का साधारण निर्वाचन, 2010	107-दरौली	रामपुकार हरिजन ग्राम-पिपार पाती पो०+ऑ-ताली जिला-सिवान, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
9	-वही-	-वही-	सुमित्रा देवी ग्राम-करमदहा, सोहराई पो०-ताली, थाना-गुठनी जिला-सिवान	-वही-
10	-वही-	108-रघुनाथपुर	डॉ. चन्द्रमा सिंह ग्राम-नवादा, पोस्ट+थाना-रघुनाथपुर जिला-सीवान, बिहार	-वही-
11	-वही-	-वही-	मे० इमरान ग्राम-खजरौनी, पोस्ट-फरीदपुर, थाना-हुसैनगंज, जिला-सीवान, बिहार	-वही-
12	-वही-	-वही-	हामीदरजा खाँ ग्राम-शेखपुरा, पोस्ट-हसनपुरा, थाना-एम.एच. नगर, जिला-सीवान, बिहार	-वही-
13	-वही-	-वही-	अनिल कुमार सिंह ग्राम+पोस्ट-संठी, थाना-रघुनाथपुर, जिला-सीवान, बिहार	-वही-
14	-वही-	-वही-	कमरुन हक बररनिंग घाट, थाना-नगर थाना, मुजफ्फरपुर, प्रखण्ड-मुसहरी जिला- मुजफ्फरपुर, बिहार	-वही-
15	-वही-	-वही-	त्रिभुवन सिंह ग्राम+पोस्ट-ग्यासपुर, थाना-सिसवन, जिला-सीवान, बिहार	-वही-
16	-वही-	146-बेगूसराय	अरुण कुमार पासवान पिता-मेढनी पासवान सा०-पोखरिया जिला-बेगूसराय बिहार	-वही-
17	-वही-	-वही-	कुशवेश्वर पासवान उर्फ कुन्दन पिता-हरखित पासवान वीरपुर जिला- बेगूसराय बिहार	-वही-
18	-वही-	-वही-	राजीव कुमार अमर पिता-कृष्ण कान्त सिंह वीरपुर जिला - बेगूसराय, बिहार	-वही-

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निर्हरता का कारण
1	2	3	4	5
19	बिहार विधान-सभा का साधारण निर्वाचन, 2010	179-बाढ़	सुनील कुमार अम्बेडकर ग्राम-अकबरपुर, पोस्ट-थाना-बाढ़ जिला-पटना, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
20	-वही-	-वही-	पुष्पा देवी ग्राम-चकजलाल पोस्ट-खुजरार थाना-भदौर जिला-पटना, बिहार	-वही-
21	-वही-	-वही-	बबलू सिंह ग्राम+पो0-राउरी थाना-बाढ़ जिला-पटना, बिहार	-वही-
22	-वही-	184-पटना साहिब	मोहसिन प्रवेज अशोक राजपथ, त्रिपोलिया प्रखंड-पटना सदर थाना-आलमगंज डाकघर-गुलजारबाग, पटना बिहार, 800007	-वही-
23	वही-	-वही-	रणजीत कुमार दीदारगंज, (धर्मशाला) पो0-कटरा बाजार समिति, थाना -दीदारगंज जिला-पटना, बिहार, 800008	-वही-
24	वही-	-वही-	विककी 1 फ्रेजर-रोड़, गुरुद्वारा गली प्रखंड-पटना सदर थाना-कोतवाली, डाकघर-पटना जी. पी. ओ. पिन-800001 बिहार	वही-
25	-वही-	221-नवीनगर	भीम कुमार पिता-राम नरेश पासवान ग्राम-अंकोरध थाना-नवीनगर, जिला-औरंगाबाद, बिहार	-वही-
26	-वही-	224-रफीगंज	नफीस अहमद खा ग्राम-खैरा, पो0-आदरचक थाना-डुमरिया जिला-गया, बिहार	-वही-
27	-वही-	237-नवादा	राज किशोर राज ग्राम-गम्भीरपुर, पो0-साम्बे, थाना-वारिसलीगंज, जिला-नवादा, पटना, बिहार	-वही-

क्रम सं०	निर्वाचन का विवरण	विधान-सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निर्हरता का कारण
1	2	3	4	5
28	बिहार विधान-सभा का साधारण निर्वाचन, 2010	239-वारिसलीगंज	श्रवन कुमार ग्राम-मीरचक थाना-वारिसलीगंज जिला-नवादा, बिहार	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने में असफल रहे।

आदेश से,  
आर के श्रीवास्तव,  
प्रधान सचिव,  
भारत निर्वाचन आयोग।

## ELECTION COMMISSION OF INDIA

### ORDER

*Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001 Dated 7 August, 2014/  
16 Shravana, 1936 (Saka)*

No. 76/BR-LA/2010—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2010 from the State of Bihar as specified in column (2) held from the constituency specified in column(3) against his/her name has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column(5) of the said Table;

And Whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice or the Election Commission after considering the representation made by them, if any, is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column(4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

**TABLE**

S.No.	Particulars of Election	Number &Name of the Constituency	Name &Address of the Candidate	Reason of disqualification
1.	General Election to the Legislative Assembly 2010 from the State of Bihar	105-Siwan	Ajay Kumar Vill-Fatehpur P O- Siwan Dist.- Siwan Bihar	Failure to lodge any account of Election expenses
2.	-do-	107-Darauli	Ram Sakal Ram Vill-Murakarmwar, PO-Murakhap, Ps-Darauli, Dist.-Siwan Bihar	-do-

S.No.	Particulars of Election	Number & Name of the Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
3.	<b>General Election to the Legislative Assembly 2010 from the State of Bihar</b>	<b>107-Darauli</b>	Nand ji Ram Vill.-Nepura, PO-Dumrahar Khurd, Ps.-Darauli, Dist.-Siwan Bihar	<b>Failure to lodge any account of Election expenses</b>
4.	-do-	-do-	Madhuri Devi Vill.+Post- Sirisia, PS – Nautan Dist.- Siwan, Bihar	-do-
5.	-do-	-do-	Ashok Kumar Prasad Vill.- Balahu Tola Ram Nagar, PO – Balahu, Ps, - Darauli Dist.- Siwan, Bihar	-do-
6.	-do-	-do-	Ramjit Bharti Vill.-Dhaura PO-Bhalua, PS- Guthani, Dist- Siwan, Bihar.	-do-
7.	-do-	-do-	Raghunath Ram Vill+PO- Rampur, PO-Rampur ka Toal, Dist.- Siwan, Bihar.	-do-
8.	-do-	-do-	Ram Pukar Harijan Vill.- Pipar Pati, PO- Tali, Dist.- Siwan, Bihar	-do-
9.	-do-	-do-	Sumitra Devi Vill.- karamdaha Sohrali, Po.- Tali Ps.-Guthani, Dist.- Siwan, Bihar	-do-
10.	-do-	<b>108-Raghunathpur</b>	Dr. Chandrama Singh Village-Nawada, P.O+P.S – Raghunathpur Dist. – Siwan, Bihar	-do-
11.	-do-	-do-	Md. Imran Village-Khajrouni, P.o.-Faridpur P.s.-Hussainganj, Dist.- Siwan, Bihar	-do-

S.No.	Particulars of Election	Number & Name of the Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
12.	<b>General Election to the Legislative Assembly 2010 from the State of Bihar</b>	<b>108-Raghunathpur</b>	HamidRaza Khan Village- Shiakhpora, P.o.-Hassanpura, P.s- M.H. Nagar, District-Siwan, Bihar	<b>Failure to lodge any account of Election expenses</b>
13.	-do-	-do-	Anil Kumar Singh Village+P.-Santhi, P.s-Raghunathpur, District-Siwan, Bihar	-do-
14.	-do-	-do-	Kamarul Hak Barranig Ghat, Block-Musahri P.s-Town Thana, Muzaffarpur, Dist.-Muzaffarpur, Bihar	-do-
15.	-do-	-do-	Tribhuwan Singh Village+P.o.-Gyaspur P.s-Siswan, District-Siwan, Bihar	-do-
16.	-do-	<b>146-Begusarai</b>	Arun Kumar Paswan S/o Medni Paswan At-Pokharia, Dist.-Begusarai Bihar	-do-
17.	-do-	-do-	Kusheshwar Paswan Alias Kundan S/o Harkhit Paswan At+po – Birpur Dist. – Begusarai, Bihar	-do-
18.	-do-	-do-	Rajeev Kumar 'Amar' S/o Krishnakant Singh At+Po – Birpur Dist. – Begusarai	-do-
19.	do-	<b>179-Barh</b>	Sunil Kumar Amedkar Vill.- Akbarpur, Po&ps- Barh, Dist.- Patna, Bihar	-do-
20.	-do-	-do-	Pushpa Devi Vill.- Chakjala, Post-Khajurar Ps-Bhadaur, Block Pandarak, Subdivision Barh, Dist.-Patna, Bihar 803214	-do-

S.No.	Particulars of Election	Number & Name of the Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
21.	<b>General Election to the Legislative Assembly 2010 from the State of Bihar</b>	<b>179-Barh</b>	Bablu Singh Villate-+Post- Raori, Ps – Barh Dist.- Patna, Bihar	<b>Failure to lodge any account of Election expenses</b>
22.	-do-	<b>184-Patna Sahib</b>	Mohsin Pravej Ashok Rajpath, Tripolia Prakhand-Patna Sadar, Thana-Alamganj, PO-Guljarbag, Patna Bihar-800007	-do-
23.	-do-	-do-	Ranjit Kumar Didarganj, (Dharamshala) PO- Katra Bazar Samiti, Thana-Didarganj, Dist-Patna, Bihar-800008	-do-
24.	-do-	-do-	Vicky 1, Frazer Road Gurudwara Gali, Prakhand-Patna Sardar, Thana-Kotawali PO-Pata, G.P.O. Bihar-800001	-do-
25.	-do-	<b>221- Navinagar</b>	Bhim kumar S/o Ram Naresh paswan, Vill. – Ankhoradh P.s. – Navinagar Distt. – Aurngabad, Bihar	-do-
26.	do-	<b>224 – Rafiganj</b>	Nafis Ahamad Khan Village – Khaira P.O. – Adarchak P.S. – Dumarya Dist – Gaya, Bihar	do-
27.	do-	<b>237-Nawada</b>	Raj Kishor Raj Village Gambhirpur, P.O-Sambey, P.S-Warisaliganj, District- Nawada, Bihar	do-



S.No.	Particulars of Election	Number & Name of the Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
28.	<b>General Election to the Legislative Assembly 2010 from the State of Bihar</b>	<b>239-Warisaliganj</b>	Shrawan Kumar Vill.-Mirchak P.s- Warisaliganj Dist.-Nawada	<b>Failure to lodge any account of Election expenses</b>

By order,  
**R K SRIVASTAVA ,**  
*Principal Secretary,*  
*Election Commission of India.*

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 984-571+400-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>